

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- फेडरल रिजर्व ने 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की वृद्धि की और उधारी लागत को प्रतिबंधात्मक स्तरों तक बढ़ाने के लिए एक आक्रामक योजना तैयार की।
- चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण चीन में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2022 के पहले दो महीनों में 10% गिरकर एक साल पहले की समान अवधि से 157.96 मिलियन टन रह गया है।
- चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) के अनुसार चीन में प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन 2022 के पहले दो महीनों में 1.4% कम होकर पिछले वर्ष की समान अवधि से 6.33 मिलियन टन रह गया।
- अधिकारियों के अनुसार भारत कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव के तहत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में कम से कम 240 बिलियन रुपये (3.3 बिलियन डॉलर) जारी करेगा।
- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय दरों पर भारी छूट पर लगभग 30 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है।
- ओपेक की मासिक तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में भारत में कच्चे तेल का आयात औसतन 45 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो एक महीने पहले की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत कम है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) ने अपने प्लेटफॉर्म पर सर्राफा की लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) के साथ हाथ मिलाया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार अप्रैल से तेल बाजार में प्रति दिन 30 लाख बैरल रूसी कच्चे और रिफाईंड उत्पादों की कमी हो सकती है, जो अधिक कीमतों के कारण मांग में प्रति दिन दस लाख बैरल से अधिक की गिरावट से अधिक है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.03.22	16.03.22	बदलाव (%)
मक्का	2088.00	2234.00	6.99%
धान	4069.00	4217.00	3.64%
बाजरा	2089.00	2133.00	2.11%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.03.22	16.03.22	बदलाव (%)
स्टील	60080.00	56770.00	-5.51%
गेहूं	2361.00	2259.00	-4.32%
सोयामील	69310.00	66510.00	-4.04%
धनिया	10830.00	10492.00	-3.12%
जीरा	21140.00	20490.00	-3.07%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.03.22	16.03.22	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	1029.00	33.60	0.45%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.03.22	16.03.22	बदलाव (%)
कच्चा तेल	8335.00	7296.00	-12.47%
एल्युमीनियम	282.65	264.35	-6.47%
चांदी	70370.00	67304.00	-4.36%
सोना	52878.00	51147.00	-3.27%
निकल	2794.50	2717.60	-2.75%

साप्ताहिक समीक्षा

रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम को लेकर वार्ता में प्रगति और इक्विटी बाजार में उछाल के कारण कमोडिटीज की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बहुप्रतीक्षित गिरावट हुई है। सीआरबी इंडेक्स 300 के स्तर से नीचे टूट गया, जिससे पिछले सप्ताह में 328.75 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। येन के मुकाबले डॉलर पांच साल के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है क्योंकि निवेशकों ने यूक्रेन युद्ध और चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच फेडरल रिजर्व नीति के फैसले की प्रतीक्षा की। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी के फैसले से पहले ट्रेजरी यील्ड में उछाल आया। दो सप्ताह के भीतर सोने और चांदी की कीमतों में क्रमशः 55558 से 51220 और 73078 से 67607 तक गिरावट देखी गई। सोना दो सप्ताह के निचले स्तर के करीब आ गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नवीनतम नीतिगत फैसले का इंतजार करते हुए निवेशक बड़े पोजिशन से दूर रहे। अधिक ब्याज दरों ने गैर-यील्ड वाले बुलियन को रखने की अवसर लागत में वृद्धि की। कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को लगभग तीन सप्ताह में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई क्योंकि चीन में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मांग में कमी आने की आशंका से कच्चे तेल में भारी बिकवाली हुई। एक मासिक रिपोर्ट में, ओपेक अपने विचार पर अड़ा रहा कि 2022 में विश्व स्तर पर तेल की मांग में 4.15 मिलियन बैरल प्रति दिन की वृद्धि होगी। लेकिन ओपेक ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध और कोविड-19 को लेकर चिंताएं विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से प्रभावित कर रही हैं, और यह कहा कि इससे छोटी अवधि में वैश्विक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नैचुरल गैस की कीमतों को 340 के करीब सपोर्ट मिला और कीमतें अंततः 360 के ऊपर बढ़ गईं। बेस मेटल में अलग-अलग दिशाओं में कारोबार हुआ। तेज गिरावट के बाद निकल की कीमतों ने नरमी के रुख के साथ एक दायरे में कारोबार किया। एलएमई ने 16 अप्रैल को निकल का कारोबार फिर से शुरू किया, लेकिन कीमतों के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद तकनीकी समस्या की जांच करने के लिए निकल में कारोबार बंद कर दिया। तांबा, एल्युमीनियम और लेड की कीमतों में अधिक गिरावट देखी गई क्योंकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया जबकि जिंक की कीमतों में कुछ हद तक रिकवरी हुई। वर्तमान एसएचएफई/एलएमई जिंक कीमतों के अनुपात पर आयातित जिंक अयस्क पर भारी नुकसान के कारण, चीन के स्मेल्टर घरेलू अयस्क पसंद करते हैं। यदि एसएचएफई/एलएमई जिंक कीमतों के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है, तो कुछ स्मेल्टरों को अपना उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

कृषि कमोडिटीज में, मसालों के लिए यह एक कमजोर सप्ताह था जिसमें तीनों मसालों में उच्च स्तर से मुनाफावसूली देखी गई। मुनाफावसूली और कोरोना के नए प्रकोप के कारण चीन को निर्यात कम होने की आशंका से जीरे की कीमतों में गिरावट हुई। होली के त्योहार से पहले नयी आवक से हल्दी और धनिया की कीमतों में गिरावट हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण रोमानिया और बुल्गारिया से धनिया की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे लंबे समय में भारतीय बाजार को समर्थन मिलेगा। कम निर्यात मांग के कारण कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में गिरावट हुई। कच्चे तेल में नरमी के कारण ग्वार काउंटर की कीमतों में भी गिरावट हुई।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	11.03.22	16.03.22	(%)
जौ	जयपुर	2,079.25	2,124.50	2.18
चना	दिल्ली	5,250.00	5,092.10	-3.01
धनिया	कोटा	10,520.00	10,350.00	-1.62
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,570.55	1,549.60	-1.33
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,156.50	1,145.25	-0.97
ग्वारसीड	जोधपुर	6,150.00	6,094.40	-0.90
ग्वारगम	जोधपुर	11,400.00	11,168.75	-2.03
जीरा	ऊंझा	21,072.20	20,461.10	-2.90
सरसों	जयपुर	7,303.15	7,000.00	-4.15
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,600.00	1,590.00	-0.63
सोयाबीन	इंदौर	7,865.00	7,635.00	-2.92
हल्दी	निजामाबाद	8,505.90	8,390.00	-1.36
गेहूं	दिल्ली	2,380.00	2,282.00	-4.12
कॉटन	कडी	37,169.55	37,767.15	1.61
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,288.20	3,250.30	-1.15

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.03.22	16.03.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,483.00	3,258.50	-6.45
तांबा	LME	नकद	10,183.50	10,054.00	-1.27
लेड	LME	नकद	2,325.50	2,251.50	-3.18
निकल	LME	नकद	48,033.00	45,590.00	-5.09
जिंक	LME	नकद	3,815.00	3,808.50	-0.17
सोना	COMEX	अप्रैल	1,985.00	1,909.20	-3.82
चांदी	COMEX	मई	26.16	24.71	-5.54
लाइट कूड	NYMEX	अप्रैल	109.33	95.04	-13.07
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	4.73	4.748	0.49

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.03.22	16.03.22	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	मई	16.76	16.49	-1.61
सोया तेल	CBOT	मई	76.03	73.55	-3.26
सीपीओ	BMD	मई	121.03	119.80	-1.02
कॉटन	ICE	जून	6,707.00	6,067.00	-9.54

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	11.03.22 क्वांटिटी	16.03.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	4180	4180	0
कैस्टर सीड	मी.टन	4473	4272	-201
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	81631	86084	4453
ग्वारगम	मी.टन	22040	22483	443
ग्वारसीड	मी.टन	30185	31098	913
मक्का	मी.टन	1292	1089	-203
जीरा	मी.टन	4072	5091	1019
सोयाबीन	मी.टन	1974	2009	35
हल्दी	मी.टन	310	883	573
स्वील लांग	मी.टन	10	10	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	11.03.22 क्वांटिटी	16.03.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	2,010	2,356	346
तांबा	मी.टन	1,864,892	1,864,892	0
सोना	किग्रा	586	613	27
सोना गिनी	किग्रा	14,208	14,208	0
सोना मिनी	किग्रा	533,400	858,200	324800
लेड	किग्रा	2,212	2,656	444
निकल	किग्रा	427,242	416,977	-10265
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	63,209	62,669	-540
जिंक	मी.टन	478	612	134

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 11.03.22	स्टॉक की स्थिति 16.03.22	अंतर
एल्युमीनियम	762,775	742,200	-20,575
तांबा	71,900	77,525	5,625
निकल	74,238	74,988	750
लेड	39,250	38,675	-575
जिंक	140,950	144,425	3,475



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	20490.00	03.01.22	तेजी	17500.00	20200.00	-	20000.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	6164.00	17.03.22	मंदी	6200.00	-	6450.00	6500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	3080.00	15.12.21	तेजी	2800.00	3020.00	-	3000.00
MCX	रबर	मार्च	16826.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17350.00	17400.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	1033.60	10.01.22	मंदी	1030.00	-	1059.00	1060.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	15031.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14640.00	-	14600.00
MCX	चांदी	मई	67304.00	07.02.22	तेजी	61900.00	66550.00	-	66300.00
MCX	सोना	अप्रैल	51147.00	07.02.22	तेजी	48200.00	50040.00	-	50000.00
MCX	मेटलडेक्स	अप्रैल	22348.00	16.12.21	तेजी	16700.00	21200.00	-	21000.00
MCX	तांबा	अप्रैल	801.60	16.12.21	तेजी	740.00	775.00	-	770.00
MCX	लेड	अप्रैल	185.05	16.12.21	तेजी	186.00	181.00	-	180.00
MCX	जिंक	अप्रैल	316.05	16.12.21	तेजी	275.00	295.00	-	290.00
MCX	निकल	अप्रैल	2756.20	16.12.21	तेजी	1530.00	2250.00	-	2200.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	266.55	16.12.21	तेजी	218.00	255.00	-	250.00
MCX	एनर्जीडेक्स	अप्रैल	7421.00	04.01.22	तेजी	5700.00	7150.00	-	7100.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	7205.00	04.01.22	तेजी	5800.00	6600.00	-	6500.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	361.80	15.02.22	तेजी	320.00	325.00	-	320.00

*16/03/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पंजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युद्ध को मार्गिग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

जिंक (अप्रैल) एमसीएक्स



जिंक (अप्रैल) एमसीएक्स

एमसीएक्स में जिंक(अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2022 को 316.05 रु पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 370.00 रु के उच्च स्तर पर था। 21 फरवरी 2022 को 293.75 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.12 है। 323.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 302.00 रु के टारगेट के लिए 317.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

जीरा (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



जीरा(अप्रैल) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में जीरा(अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2022 को 20490.00 रु पर बंद हुआ। 23 जनवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 22800.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 22 दिसम्बर 2021 को 16910.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 49.47 है। 20000.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 21500.00 रु के टारगेट के लिए 20500.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

कॉटन (मार्च) एमसीएक्स



कॉटन (मार्च) एमसीएक्स

एमसीएक्स में कॉटन (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 16 मार्च 2022 को 38330.00 रु पर बंद हुआ। 14 फरवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 39040.00 रु के उच्च स्तर पर था। 02 फरवरी 2022 को 32320.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 63.683 है। 37900.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 39500.00 रु के टारगेट के लिए 38400.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में पिछले हफ्ते भी गिरावट जारी रही क्योंकि हाजिर बाजार में नए सीजन की आवक बढ़ रही है। अब कीमतें 8950 पर अहम रेजिस्टेंस के साथ 8000 रु तक गिरावट दर्ज कर सकती है। फिलहाल नए सीजन की हल्दी बाजार में दस्तक दे रही है लेकिन इस सीजन में निर्यात सामान्य है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में हल्दी का निर्यात दिसंबर 2021 के 14275 टन की तुलना में 25% घटकर 10,600 टन रह गया है। वित्त वर्ष 2021/22 के पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 20.1% घटकर 1.27 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.2% अधिक है।

चीन में कोरोना के प्रकोप के कारण निर्यात प्रभावित होने की आशंका से जीरा वायदा (अप्रैल) की कीमतों पर पिछले सप्ताह दबाव रहा। यदि कीमतें 19350 के तत्काल सपोर्ट से नीचे टूटती है तो कीमतों में अधिक गिरावट हो सकती है। नए सीजन के जीरे की अधिकतम आवक का सीजन अगले एक महीने में शुरू हो जाएगा। उद्ग्रा में पुरानी और नई फसल की आवक पिछले सप्ताह 15000 से कम बोरी की तुलना में प्रतिदिन लगभग 20000-25000 बोरी (1 बोरी=55 किग्रा) हो गई है। नए साल में, जीरा की कीमतों में 29% से अधिक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में गुजरात और राजस्थान राज्य में कम उत्पादन की खबरों पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 40% अधिक हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में जीरा निर्यात 19% बढ़कर 14725 टन हो गया, जबकि दिसंबर 2021 में 12385 टन था। लेकिन अप्रैल-जनवरी में जीरा का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 23% घटकर 1.88 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.44 लाख टन हुआ था।

धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट जारी रही लेकिन पिछले एक महीने से 10400 के स्तर पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस 11000 के स्तर पर है। यदि कीमतें इस रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो कीमतें 11500 तक बढ़ सकती है। कम उत्पादन और अच्छी मांग की उम्मीद के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 50% अधिक और जनवरी के बाद से 20% अधिक हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में धनिया का निर्यात दिसंबर 2021 में 4630 टन की तुलना में 15% कम होकर 3590 टन रह गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात पिछले साल के 48,350 टन से 15% घटकर 41,100 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 11% अधिक है।

अन्य कमोडिटीज

अच्छी भौतिक मांग और कमजोर आपूर्ति के कारण कॉटन वायदा (मार्च) की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी रही। यदि कीमतें 38650 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करती हैं तो 40,000 के स्तर तक बढ़ सकती हैं। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 75% अधिक हैं और नए साल में लगभग 14% बढ़ी है। मार्च की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, यूएसडीए ने 2021-22 में वैश्विक कपास उत्पादन अनुमान को फरवरी 2022 में अनुमानित 120.2 मिलियन गांठ की तुलना में घटाकर 119.9 मिलियन गांठ (1 यूएस गांठ= 218 किग्रा) कर दिया। दूसरे अग्रिम अनुमान में, सरकार ने पहले अनुमान के 362 लाख गांठ से देश में कपास उत्पादन को घटाकर 340 लाख गांठ कर दिया है।

ग्वारसीड वायदा (अप्रैल) की वायदा कीमतों में लगातार दो सप्ताह की तेजी के बाद पिछले सप्ताह उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण गिरावट हुई और अब तत्काल सपोर्ट 6000 पर है और यदि कीमतें 6320 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो 6600 के स्तर तक कारोबार कर सकती है। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 60% अधिक हैं। तेल-रिंग की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 248 अधिक है। एपीडा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 5% बढ़कर 22300 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 38.4% बढ़कर 2.64 लाख टन हुआ है।

अरंडी वायदा (अप्रैल) की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर 7460 के करीब कारोबार कर रही है। कीमतों में अभी भी तेजी का रुझान है और उम्मीद है कि कीमतें 7600 तक बढ़ सकती है। अधिक मांग और कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 54% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 24% से अधिक की वृद्धि हुई है। एसईए ग्लोबल कैंस्टर कॉन्फ्रेंस 2022 में 2021-22 में भारत में अरंडी का उत्पादन 17.95 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2020-21 में 17.89 लाख टन था। अप्रैल-जनवरी के दौरान अरंडी के तेल का निर्यात पिछले साल के निर्यात 5.06 लाख टन के बराबर है।

मेंथा ऑयल (मार्च) की कीमतें पिछले हफ्ते बहुत कम दायरे में कारोबार कर मामूली गिरावट के साथ बंद हुई। तत्काल रेजिस्टेंस 1050 के स्तर पर है और सपोर्ट 1000 पर है। साप्ताहिक स्तर पर कीमतों में तेजी का रुझान है और आने वाले हफ्तों में 1100 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मक्का और अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के कारण इस मौसम में मेंथा की बुवाई प्रभावित होने वाली है।

सर्षा

रूस-यूक्रेन के बीच वार्ता और इक्विटी में तेजी के बीच पिछले कुछ सत्रों में सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम वार्ता से सुरक्षित निवेश के लिए मांग कम होने से सोने की कीमतों नुकसान हुआ। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई लेकिन दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था की उत्पादनक समीक्षा की। फेड के दर के फैसले ने मई 2019 के बाद से अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। भू-राजनीतिक संकट के समय में सोने के लिए महत्वपूर्ण सवाल हमेशा यह होता है कि क्या आर्थिक और वित्तीय बाजार में जोखिम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिलहाल, सोने का बाजार बाद की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा है। लेकिन यह लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है, जो अत्यधिक असिधरता और अनिश्चितता से भरा है। इस बीच, यूक्रेन और रूस ने वीडियो के माध्यम से बातचीत फिर से शुरू की, जिसमें जेलेन्स्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलीक ने कहा है कि यूक्रेन, संघर्ष विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और कई देशों से यूक्रेन के लिए कानूनी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेन्स्की ने कहा कि बातचीत अधिक यथार्थवादी हो रही है और रूस ने कहा कि चर्चा के प्रस्ताव एक समझौते के करीब हैं। रूसी केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह घरों से सोने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंकों से सोने की खरीद को निलंबित कर देगा जो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी बाजारों में हलचलों का सामना करने का नवीनतम प्रयास है। इस बीच, दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग बढ़कर 1,070.53 टन हो गई है जो एक वर्ष में सबसे अधिक है। इस सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जहां निकट सपोर्ट पर खरीदना और रेजिस्टेंस के पास बेचना एक रणनीति होगी। सोने की कीमतें 49000-53200 में जबकि चांदी की कीमतें 65800-71000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

यूक्रेन और रूस ने राजनयिक वार्ता फिर से शुरू होने और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ऊर्जा बाजारों में तबाही को कम करने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि का समर्थन किए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 12% से अधिक की गिरावट हुई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपने यूक्रेनी समकक्ष दिमित्रो कुलेबा के साथ योजनाबद्ध वार्ता से पहले तुर्की पहुंचे हैं, जहां दो सप्ताह पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद दोनों के बीच पहली बैठक होगी। मास्को ने कहा है कि अमेरिका ने रूस पर आर्थिक युद्ध की घोषणा की है और चेतावनी दी कि वह रूसी तेल और ऊर्जा आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर विचार कर रहा है। यूईई द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) को उच्च उत्पादन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के बयान के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में लगभग दो वर्षों में सबसे अधिक गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण प्रति दिन लगभग 30 लाख बैरल रूसी तेल उत्पादन बंद हो सकता है और खरीदार रूसी निर्यात को रोक सकते हैं। यह उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप प्रत्याशित मांग में 1 मिलियन बैरल/दिन की गिरावट से अधिक होगा। रूसी आक्रमण और आगामी प्रतिबंध महामारी द्वारा निर्मित आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। इस सप्ताह कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है और कीमतें 6980-7580 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें सीमित दायरे में बनी हुई हैं क्योंकि मौसम कमजोर बना हुआ है। एनओए की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले 6-10 और 8-14 दिनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसम सामान्य से अधिक गर्म रहने की उम्मीद है। सप्ताह दर सप्ताह अमेरिकी खपत में गिरावट दर्ज की गई। इस सप्ताह में कीमतें नरमी के रुझान के साथ 340-370 के दायरे में कारोबार करना जारी रख सकती हैं।



बेस मेटल

मिले-जुले फंडामेंटल के कारण बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष, रूस पर प्रतिबंध और कम वैश्विक भंडार के कारण आपूर्ति में रुकावट के कारण कीमतों को मदद मिल सकती है। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में अधिक प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद भी काउंटर के लिए सकारात्मक होगी। लेकिन चीन में उत्पादनक आर्थिक आंकड़ों के बावजूद कोविड-19 के बढ़ते मामलों से होने वाली चिंताओं के कारण कीमतों में गिरावट आ सकती है। 2022 के पहले दो महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी दर्ज की गई है जहां प्रमुख संकेतकों में विश्लेषकों की अपेक्षाओं से अधिक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ओमाइक्रोन मामलों में वृद्धि, प्रॉपर्टी की कमजोरी और बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं का आउटलुक पर असर पड़ सकता है। चीन के उपप्रधान मंत्री लियू ने सरकारी निकायों से बाजार के अनुकूल नीतियों को लागू करने और सावधानीपूर्वक उपायों को पेश करने का आग्रह किया जो बाजारों को जोखिम में डालते हैं। नाटो के बाहर यूक्रेन की स्थिति पर मास्को और कीव दोनों से समझौते की नई वार्ता से तीन सप्ताह से हो रहे युद्ध की समाप्ति को लेकर संभावित सफलता की उम्मीद जगा दी और इससे आपूर्ति की कमी कम हो सकती है। तांबे की कीमतें 760-840 के दायरे में कारोबार कर सकती है। सर्दर कॉपर ने पेरू में अपनी रिफाइनरी के लिए मेक्सिको से तांबे का कॉन्स्ट्रैट का आयात करने की योजना बनाई है, क्योंकि विरोध के बाद इसकी कुआजोन खदान में परिचालन बंद हो गया है। जिंक की कीमतें 310 के स्तर पर सपोर्ट के साथ 330 तक बढ़ सकती है। लेड की कीमतें 180-188 के दायरे में कारोबार कर सकती है। निकल की कीमतें 2450 तक फिसल सकती है। चीन की सरकारी शंघाई सिक्कोरिटीज न्यूज ने कहा है कि चीन के त्सिंगशान होल्डिंग ग्रुप ने एलएमई पर अपने बड़े शॉर्ट पोजीशन को बंद करने के लिए धातु के शुद्ध रूप के साथ अपने निकल उत्पादों को स्वैप करने के लिए दो कंपनियों के साथ समझौता किया है। एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 255-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

चांदी ईटीएफ.....भरोसे के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं

मौजूदा रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण सुरक्षित निवेश वाले धातुओं की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। आपूर्ति में रुकावट, आर्थिक प्रभावों और मुद्रास्फीति के डर से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सोने और चांदी को सीधे खरीदने के अलावा, कुछ निवेशक वायदा या सोने और चांदी खनन कंपनियों के शेयर की तरह ईटीएफ को सोने या चांदी में निवेश करने का एक अधिक लिक्विड और कम लागत वाला तरीका मानते हैं। सोने के ईटीएफ की तरह, चांदी का ईटीएफ भी चांदी की कीमत को बारीकी से ट्रैक करते हैं और आमतौर पर अधिक लिक्विड होते हैं।

बार या बुलियन खरीदने, डिलीवरी की व्यवस्था करने, फिर धातु के लिए सुरक्षित भंडारण खोजने, फिर खरीदार खोजने की कठिनाई से निपटने के बजाय ईटीएफ एक क्लिक के साथ चांदी खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं। वजन में भारी और स्टोर करने में मुश्किल होने के अलावा, भौतिक चांदी हाजिर कीमतों के मुकाबले बड़े प्रीमियम पर कारोबार कर सकती है। इस प्रकार, चांदी के लिए, ईटीएफ खरीदना बेहतर होगा क्योंकि किसी को निवेश की चांदी, शुद्धता, गुणवत्ता या लिक्विडिटी को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में, जब आप भौतिक चांदी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है लेकिन जब आप वास्तव में भौतिक चांदी बेचते हैं तो जीएसटी भुगतान के लिए आपको कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता है।

चांदी के ईटीएफ

विश्व स्तर पर चांदी के कई ईटीएफ हैं जिनका विभिन्न बाजारों में कारोबार होता है। आईशेयरसिल्वर ट्रस्ट 12.7 बिलियन डॉलर की प्रबंधनाधीन संपत्ति के साथ चांदी का सबसे बड़ा ईटीएफ है, जो सोने की एसपीडीआर ट्रस्ट के 60 बिलियन डॉलर के पांचवें भाग से थोड़ा अधिक है। इस फंड के वर्तमान में इंग्लैंड और अमेरिका में स्थित वाल्टों में 544 मिलियन औंस चांदी है।


भारत में, बाजार नियामक सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत के दूसरे सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने जनवरी 2022 में भारत का चांदी का पहला ईटीएफ शुरू किया। पिछले एक महीने में, चांदी की इस नए ईटीएफ ने ईटीएफ कैटेगरी ने 8% के औसत रिटर्न के साथ सोने के फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का मानना है कि भू-राजनीतिक परिदृश्य और अनिश्चितता एवं अराजकता के माहौल में चांदी और अन्य कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भी चांदी पर आधारित ईटीएफ के नए फंड ऑफर शुरू किए हैं। चांदी के ईटीएफ को चांदी की घरेलू कीमत के मुकाबले एलबीएमए से प्राप्त कीमतों से बेंचमार्क किया जाता है।

निवेशक योजना की इकाइयों को 1 इकाई के लॉट में और उसके गुणकों में खरीद / बेच सकते हैं, जबकि अधिकृत एजेंट / निवेशक योजना की इकाइयों को 30,000 यूनिट और उसके गुणकों में खरीद / बेच सकते हैं।

भारत में सिल्वर ईटीएफ के संबंध में दिशानिर्देश

सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चांदी की ईटीएफ योजना को शुद्ध संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना चाहिए। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के अनुरूप चांदी को 99.9 प्रतिशत शुद्धता (999 पार्ट्स प्रति हजार) के साथ मानक 30 किग्रा-बार का होना चाहिए। साथ ही, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, नियामक ने फंड हाउसों को चांदी ईटीएफ इकाइयों के तहत चांदी के भौतिक सत्यापन के लिए कहा है। यह सत्यापन म्यूचुअल फंड के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा, जो हर छह महीने में ट्रस्टियों को रिपोर्ट करेगा।

5जी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा जैसी भविष्य की तकनीकों में चांदी की कई भूमिकाएँ हैं। यह धातु की खपत और मांग के लिए एक नया मार्ग खोलता है। इसलिए चांदी ईटीएफ लंबी अवधि में आर्थिक रिकवरी के दौरान पोर्टफोलियो को बेहतर विविधता, मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और सोने की तुलना में बेहतर मुनाफा प्रदान करता है।



स्रोत: आईसीआईसीआई प्रू एमसी और एमसीएक्स



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एलए द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रायिकता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्योरिटीज एन एन एन के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ट्रॉकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।